




GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA

(A Central University)

Bilaspur (C.G.) India, 495009, Ph. : 07752260209, 260017



Name : **MOUSMI BISWAS**
F. Name : ANUP KUMAR BISWAS
Mother : SUPRIYA BISWAS
Class : M.COM CBCS
Dept. : Department of Commerce
D.o.B. : 20.11.2001
Blood G. : A+
Validity : **2021 to 2023**


Student's Sign


Chief Proctor



GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA

(A Central University)

Bilaspur (C.G.) India, 495009, Ph. : 07752260209, 260017



Name : **MANISH KUMAR PRAJAPATI**

F. Name : GOVIND LAL PRAJAPATI

Mother : RAMESHWARI PRAJAPATI

Class : M.COM CBCS

Dept. : Department of Commerce

D.o.B. : 30.09.2001

Blood G. : B+

Validity : **2021 to 2023**

Student's Sign

Chief Proctor



अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

(A State University Established by Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973)

ATAL BIHARI VAJPAYEE VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (CHHATTISGARH)

www.bilaspuruniversity.ac.in

MAIN EXAMINATION - MAR.-APR. - 2023 | मुख्य परीक्षा - MAR.-APR. - 2023

PROVISIONAL ADMIT CARD / प्रावधिक प्रवेश पत्र

Candidate's Name **POONAM RAKESH**
Father's/Husband's Name **SITARAM RAKESH**
Mother's Name **SHARDA RAKESH**
USER ID **BP210230662** ENROLLMENT NO. **2021050358** ROLL NO. **729423** STATUS **Private/Non Colleague** GENDER **FEMALE**
EXAM CODE & Name **(067) M.Com. (Final)**
Name of College **(201) C.M.DUBEY POST GRADUATE COLLEGE, BILASPUR (C.G.)**
Examination Centre **(201) C.M.DUBEY POST GRADUATE COLLEGE, BILASPUR (C.G.)**



TIME TABLE / समय सारणी

SUBJECT CODE AND NAME	PAPER	EXAMINATION DATE	DAY	TIME
21 - ACCOUNTING FOR MANAGERIAL DECISIONS	1	01 Apr 2023	Saturday	03:00 PM TO 06:00 PM
22 - CORPORATE LEGAL FRAMEWORK & RESEARCH METHODOLOGY	1	05 Apr 2023	Wednesday	03:00 PM TO 06:00 PM
26 - ADVERTISING AND SALES MANAGEMENT	1	10 Apr 2023	Monday	03:00 PM TO 06:00 PM
27 - MARKETING MANAGEMENT	1	13 Apr 2023	Thursday	03:00 PM TO 06:00 PM
28 - MARKETING RESEARCH	1	17 Apr 2023	Monday	03:00 PM TO 06:00 PM

परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

- जारी किये जा रहे ई-प्रवेश पत्र का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर लेवे, प्रवेश पत्र में अंकित समस्त जानकारी परीक्षार्थी द्वारा ऑनलाइन परीक्षा आवेदन करते समय दर्ज की गई जानकारी के अनुसार है, यदि प्रवेश पत्र में किसी भी तरह की विसंगति हो तो तत्काल महाविद्यालय के प्राचार्य को सूचित करें।
- यह प्रवेश पत्र पूर्णतः प्रावधिक तौर पर जारी किया गया है, विश्वविद्यालय के अध्यादेश 5 एवं 6 के प्रावधानानुसार और विश्वविद्यालय के दिशानिर्देशों, सम्बंधित परीक्षा के पाठ्यक्रमानुसार परीक्षा में सम्मिलित होने सम्बन्धी समस्त न्यूनतम अर्हताओं को पूर्ण करने पर ही परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा, किसी भी स्तर पर यदि परीक्षार्थी को अपात्र पाया जाता है, तो परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा अथवा परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत भी निरस्त किया जा सकेगा जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी परीक्षा फॉर्म अग्रेषणकर्ता एवं स्वयं परीक्षार्थी की होगी।
- परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में अंकित/उल्लेखित विषयों के अनुसार ही दी गई तिथि में परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना विषय/प्रश्नपत्र में परिवर्तन मान्य नहीं होगा एवं यदि परीक्षार्थी किसी अन्य विषय/प्रश्नपत्रों में विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना सम्मिलित होता है तो परीक्षा परिणाम रोक दिया जाएगा अथवा जारी नहीं किया जाएगा।
- परीक्षार्थी महाविद्यालय द्वारा प्रदान की गई विश्वविद्यालय की उत्तर पुस्तिका (32 पृष्ठ) का ही प्रयोग करेंगे एवं प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिये पृथक पृथक उत्तर पुस्तिकाओं का उपयोग करेंगे।
- मुख्य परीक्षा सत्र 2022-23 की परीक्षा के सम्बंध में जारी की गई अधिसूचनाओं में दिये गए दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करें।
- उपस्थिति पत्रक (Attestation Sheet) प्रिंट होने के बाद वि.वि. से जो जुटी सुधर किया गया है, ऐसे छात्र-छात्राओं का प्रवेश पत्र को ही आधार मानकर, उपस्थिति पत्रक (Attestation Sheet) में प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष द्वारा मैन्युअल सुधार किया जाये।

Sign of Principal/Superintendent

Seal of College/Examination Centre

Print On : 17-03-2023 at 12:27 PM

Controller of Examinations
Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya
Bilaspur (C.G.)



अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

(A State University Established by Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973)

ATAL BIHARI VAJPAYEE VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (CHHATTISGARH)

www.bilaspuruniversity.ac.in

MAIN EXAMINATION - MAR.-APR. - 2023 | मुख्य परीक्षा - MAR.-APR. - 2023

PROVISIONAL ADMIT CARD / प्रावधिक प्रवेश पत्र

Candidate's Name **MUSKAN MANCHANDA**
Father's/Husband's Name **HARESH MANCHANDA**
Mother's Name **NISHA MANCHANDA**
USER ID **BP210234533** ENROLLMENT NO. **2021050351** ROLL NO. **729398** STATUS **Private/Non Colleague** GENDER **FEMALE**
EXAM CODE & Name **(067) M.Com. (Final)**
Name of College **(201) C.M.DUBEY POST GRADUATE COLLEGE, BILASPUR (C.G.)**
Examination Centre **(201) C.M.DUBEY POST GRADUATE COLLEGE, BILASPUR (C.G.)**



TIME TABLE / समय सारणी

SUBJECT CODE AND NAME	PAPER	EXAMINATION DATE	DAY	TIME
21 - ACCOUNTING FOR MANAGERIAL DECISIONS	1	01 Apr 2023	Saturday	03:00 PM TO 06:00 PM
22 - CORPORATE LEGAL FRAAMEWORK & RESEARCH METHODOLOGY	1	05 Apr 2023	Wednesday	03:00 PM TO 06:00 PM
26 - ADVERTISING AND SALES MANAGEMENT	1	10 Apr 2023	Monday	03:00 PM TO 06:00 PM
27 - MARKETING MANAGEMENT	1	13 Apr 2023	Thursday	03:00 PM TO 06:00 PM
28 - MARKETING RESEARCH	1	17 Apr 2023	Monday	03:00 PM TO 06:00 PM

परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

- जारी किये जा रहे ई-प्रवेश पत्र का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर लेवें, प्रवेश पत्र में अंकित समस्त जानकारी परीक्षार्थी द्वारा ऑनलाइन परीक्षा आवेदन करते समय दर्ज की गई जानकारी के अनुसार है, यदि प्रवेश पत्र में किसी भी तरह की विसंगति हो तो तत्काल महाविद्यालय के प्राचार्य को सूचित करें।
- यह प्रवेश पत्र पूर्णतः प्रावधिक तौर पर जारी किया गया है, विश्वविद्यालय के अध्यादेश 5 एवं 6 के प्रावधानानुसार और विश्वविद्यालय के दिशानिर्देशों, सम्बंधित परीक्षा के पाठ्यक्रमानुसार परीक्षा में सम्मिलित होने सम्बन्धी समस्त न्यूनतम अर्हताओं को पूर्ण करने पर ही परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा, किसी भी स्तर पर यदि परीक्षार्थी को अपात्र पाया जाता है, तो परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा अथवा परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त भी निरस्त किया जा सकेगा जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी परीक्षा फॉर्म अग्रेषणकर्ता एवं स्वयं परीक्षार्थी की होगी।
- परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में अंकित/उल्लेखित विषयों के अनुसार ही दी गई तिथि में परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना विषय/प्रश्नपत्र में परिवर्तन मान्य नहीं होगा एवं यदि परीक्षार्थी किसी अन्य विषय/प्रश्नपत्रों में विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना सम्मिलित होता है तो परीक्षा परिणाम रोक दिया जाएगा अथवा जारी नहीं किया जाएगा।
- परीक्षार्थी महाविद्यालय द्वारा प्रदान की गई विश्वविद्यालय की उत्तर पुस्तिका (32 पृष्ठ) का ही प्रयोग करेंगे एवं प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिये पृथक पृथक उत्तर पुस्तिकाओं का उपयोग करेंगे।
- मुख्य परीक्षा सत्र 2022-23 की परीक्षा के सम्बंध में जारी की गई अधिसूचनाओं में दिये गए दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करें।
- उपस्थिति पत्रक (Attestation Sheet) प्रिंट होने के बाद वि.वि. से जो डुटी सुघर किया गया है, ऐसे छात्र-छात्राओं का प्रवेश पत्र को ही आधार मानकर, उपस्थिति पत्रक (Attestation Sheet) में प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष द्वारा मैन्युअल सुधार किया जाये।

Sign of Principal/Superintendent

Seal of College/Examination Centre

Print On : 17-03-2023 at 12:08 PM

Controller of Examinations
Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya
Bilaspur (C.G.)

Date: 20 Mar 2023

Mr Bhuvnesh Ram

Dutta Gali Infront of Gudakhu Factory
Vidhani Chowk Hemu Nagar Bilaspur Bilaspur Chhattisgarh 495004

Employee No: 2850069

AS CODE:AS311155

Dear Mr Bhuvnesh Ram

Appointment Letter

We are pleased to appoint you in our organization as JUNIOR EXECUTIVE Grade E1 in the department CPA OPERATIONS subject to the following terms and conditions:

1. Your are required to join our organization on or before 20 Mar 2023 and your place of work shall presently be at Raipur

You will be on orientation period till 20-Sep-2023

The responsibilities and tasks assigned to you under this Appointment letter synchronize with the definite time line schedules for completion of various project assignments mutually agreed by our Company, with our esteemed client. As our employee, you shall perform your services in a professional manner and shall ensure that the time bound tasks are substantially completed within the specified tenure, as may be mutually agreed and reviewed on case to case basis by your Reporting authority. Depending on your performance and track record to complete the individual assignments within the definite timeline, fresh tasks for completion shall be assigned/renewed. For employee's joining in government / semi government / RBI guided projects; if under any circumstances the operator ID / criteria fulfilment parameter is suspended / barred / disqualified, then the employee's engagement under this appointment letter will come to an end with immediate effect without any liability except for the legitimate dues payable by Teamlease.

Also, you are supposed to clear all stipulated/mandatory training program assigned to you within stipulated time period failing which your engagement under this Appointment letter will come to an end with immediate effect without any liability except legitimate dues.

2. Your remuneration would be set as follows:

Salary Annexure (Per Month)

Particulars	Amount (Monthly)	Amount (Annually)
Basic	7257	87084
House Rent Allowance	3629	43548
Mobile Allowance	500	6000
Bonus	1750	21000
Special Allowance	2984	35808
Employer PF Contribution	1499	17988
ESIC - Employer	524	6288
Gratuity	349	4188
TotalAmount	18492	221904
Amount In Words(Rs)	Eighteen Thousand Four Hundred Ninety Two Rupees	Two Lakh Twenty One Thousand Nine Hundred Four Rupees

Salary and grade offered to you as above is based on the representation made by you during Your interactions with the Company officials and/ or documents submitted by you. In case of any discrepancy, company reserves right to alter/modify/withdraw the offer made to you.

This is a system generated document. Any unauthorized use, disclosure, dissemination, or copying of this document is strictly prohibited and may be unlawful.

Doc ID: TL/28309BAC5C6

3.Retirement / Statutory Benefits:

You will be Eligible for Retirement Benefits of the organization;Namely Provident Fund and Gratuity as per the company policy.

4.Gratuity:

You will be eligible for payment of Gratuity subject to fulfilment of the payment of Gratuity Act,1972.

5.Incentive Scheme:

You will participate in the Sales Incentive scheme and would receive incentives based on your performance and contribution to the organization as per the scheme. Kindly note that you will not have any right to claim any performance Incentive from the Company, if you resign or abscond or if you are separated from the Company for whatsoever reason.

It is further agreed between the company and you that the incentive,payable if any, based on your performance and productivity is in Lieu of any other bonus including bonus based on profits payable under any law.

6.Transfer:

The organization shall have the right to transfer you to any of its offices or group companies in India that is in existence or may come into existence at a future date.

7.Leave:

You will be eligible for leave, As per Company rules, subject to approval from the competent authority. It may be noted that leaves cannot be deemed as granted unless sanctioned by Competent Authority. No leaves can be taken during probation period. Women employees who have completed 80 working days with the organization shall be eligible for Maternity leave as per the policy.

8.Unauthorised Leave / Absence:

If you are on unauthorised Leave and absence for more than Five (5) days without any intimation to the Company then it would be deemed that you are not interested in continuing with the organization and you would be Automatically Ceased to be an employee of the organization.Necessary action in line with Absconding policy will be taken against you including termination of the services of the Company

9.Job Profile:

Your duties and responsibilities will be explained to you on your joining the organization. However, you shall execute and perform all such duties that may be assigned to you by the organization and the organization reserves its right to change this at its discretion.

10.Professional Ethics and Confidentiality:

While you are in the services of the organization, you are not permitted to carry on any other business or profession or be employed by or engaged with any other firm, company or person. You will devote your whole time and attention to your office work to promote the interest of the company and will not divulge to any person / third party or utilize any of the organization's confidential information or other related information (which you may possess by reason of your association with the organization) outside the organization.

11.Notice Period:

During the orientation period either party can terminate the services by giving 30 days' notice or Basic salary in lieu thereof at the organization's discretion.

After successful completion of orientation period either party may terminate the employment under this Appointment letter, by issuing 30 days' notice in writing or payment in lieu thereof at the organization's discretion.

You will be liable to submit all the company's assets, data etc., provided during your tenure in the company for carrying official duties, at the time of separation from the company.Please note that you are required to complete exit formalities

This is a system generated document. Any unauthorized use, disclosure, dissemination, or copying of this document is strictly prohibited and may be unlawful.

Doc ID: TL/28309BAC5C6

before your Last working day failing which the organization will take necessary actions including Termination from the services. The company will not be liable to pay the settle F & F in the event of non-completion of exit formalities.

12. Background Verification / Reference Check

Your appointment will be subject to satisfactory reference check. The company reserves the right to have your background verified directly or through an outside agency. If on such verification it is found that you have furnished wrong information or concealed any material information your services are liable to be terminated.

13. Termination of Employment:

Your services with the organization are liable to be terminated in the event of:

1. Any breach of the conditions mentioned in this letter on your part;
2. Any incorrect information furnished by you;
3. Suppression of any material information by you; and
4. Your performance level is below the expected level and/or the business target, as set out for you from time to time, has not been achieved by you.
5. Violation of Company's (Client's) Code of Conduct.

14. Change in the Personal Details :

You shall intimate the Company about any change of your residential address (permanent and/or current), qualification and other personal details within five days from the date of change of such details. Your residential address records with the company will be treated as official address and will be used for all official communications with you. In case of non-intimation of change in your residential address to the company, any correspondence to your last known address will be treated as communication received by the employee.

The terms and conditions of employment set out in this letter of appointment constitute service conditions to your employment in the organization in addition to code of conduct and other laid down guidelines and organization reserves the right to change the terms and conditions of your employment set out in this letter of appointment. Any future changes in the Company policies, rules, regulations and your employment terms will super cede the terms and conditions mentioned in this letter. The Courts in Raipur will have exclusive jurisdiction with regards to any dispute.

Kindly note that you are required to sign the copy of this letter as a token of your acceptance and return it to us immediately. In case we do not receive your acknowledgement copy within a period of 15 days from the date of joining, receipt of first salary by you will be conclusive proof of your acceptance of the terms and conditions mentioned herein.

A list of document to be submitted at the time of joining is given for your information.

1. Updated Resume
2. Relieving letter from previous employer
3. Copies of educational qualification certificates
4. Copies of payslips for last three months
5. Copy of AADHAR Card.
6. Copy of PAN Card.
7. Address Proof : Driving Licence /AADHAR Card / Election Card
8. Nomination form 1 under the Payment of Wages Act.
9. Nomination Form 2 under the PF Act.
10. Form XI under the PF Act.
11. Declaration form if applicable under the ESIC Act.
12. 3 nos. Passport size photographs.

We look forward to your contribution to the organization and hope that we will have a mutually fulfilling relationship.

ENDORSEMENT

I hereby confirm acceptance of the above assignment, on the terms and conditions stipulated therein.

This is a system generated document. Any unauthorized use, disclosure, dissemination, or copying of this document is strictly prohibited and may be unlawful.

Doc ID: TL/28309BAC5C6

Mandatory Training Programme - Prevention of Sexual Harassment at Work Place - The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 (Act)

In accordance with the provisions of the above Act and the Policy of the Company to create awareness on prevention of sexual harassment at workplace, we urge you to undergo an online training programme, on the subject matter.

Please note that undergoing online training is mandatory for this engagement.

The **link** to undergo the programme and complete the evaluation is given below.

Link : <https://tconnect.teamlease.com/Learning>

The training programme shall be conducted on a regular basis every year. Please complete the training programme within 15 days of receipt of this letter, after which it shall be treated as a deemed confirmation that you have understood your responsibilities in ensuring a safe workplace.

For TEAMLEASE SERVICES LIMITED

Accepted and Agreed



Signature and date:
Name: BHUVNESH RAM

(Authorized Signatory)